



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्रतिभार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 345]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 1982/कार्तिक 25, 1904

No. 345]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 1982/KARTIKA 25, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1982

अनुसूची

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम	यदि वह कमी है प्रति दिवस न्यूनतम मूल्य
(1)	(2)	(3)

आरम्भ प्रवेश

- 1 मंसूर ग्रामवालावाला कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड  
इण्डस्ट्रियल सोसायटी लि०, पो० धा० ग्रामवालावाला,  
जिला श्रीकाकुलम । 14.68
- 2 मंसूर ग्रामवालावाला कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्ड-  
स्ट्रियल सोसायटी लि०, मन्नापला, पो० धा० ग्राम-  
वालावाला, जिला विशाखापत्तनम । 18.18
- 3 मंसूर धान्ना मुगई लि०, ठुलू, जिला बेल्ल गोंडारसी 13.88
- 4 मंसूर चलापल्ली मुगई लि०, पो० धा० चलापल्ली,  
जिला कृष्णा । 10.00

सा०क्र०नि० 708 (अ)/आ०/ई०.—केन्द्रीय सरकार, ई० (नियंत्रण)  
आदेश 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए  
और उसके उपखण्ड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों की ध्यान में रखते हुए,  
जैसे प्राधिवारियों, निर्यात और सार्वजनिक से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे  
परामर्श करना यह आवश्यक समझती है और ई० की आधारित न्यूनतम  
कीमत 14.00 रुपये विवरण के आधार पर जो 8.5 प्रतिशत या उससे  
कम वसूली से पट्टबद्ध है, जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक  
0.1 प्रतिशत की वसूली की वृद्धि पर 15.2941 पैसे प्रति विवरण  
का प्रीमियम है, इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट  
कीमत को उक्त न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनु-  
सूची के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह  
प्रक्रिया वाले चीनी कारखानों के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकारियों  
द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी अन्य केन्द्र पर 30 सितम्बर,  
1983 को समाप्त होने वाले ई० वर्ष 1982-83 के लिए पर्यन्त ई०  
के लिए सदेव होंगे किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड 3क के अधीन  
उनके लिए संबंधित के अधीन रहते हुए किया जायेगा।

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5. मैसर्स चित्तूर कोमपरेटिव शुगर लि०, पो०प्रा० सवातापल्ले, जिला चित्तूर।	14 22		27. मैसर्स थो०बी०एम० शुगर लि०, पो०प्रा० चण्णल, जिला वेस्ट गोदावरी।	14.53	
6. मैसर्स गोदावरम कोमपरेटिव शुगर लि०, पो०प्रा० गोवादा, जिला विशाखापत्तनम।	13 00		28. मैसर्स वेस्ट गोदावरी कोमपरेटिव शुगर लि०, पो०प्रा० थोमडीले, जिला वेस्ट गोदावरी।	13 00	
7. मैसर्स कुड्डपा कोमपरेटिव शुगर लि०, दोलतपुरम, वाया चैन्नूर, जिला कुड्डपा।	13.00		<b>असम :</b>		
8. मैसर्स दक्कन शुगर एण्ड ब्राबकारी कोमपरेटिव लि०, पो०प्रा० समालकोट, जिला ईस्ट गोदावरी।	13.46		1. मैसर्स असम कोमपरेटिव शुगर मिल लि०, पो०प्रा० बरघा बामुतगांव, जिला निवमागर।	13.61	
9. मैसर्स इटिकोपाका कोमपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रियल सोसायटी लि०, पो०प्रा० इटिकोपाका, जिला विशाखापत्तनम।	13 00		2. मैसर्स कठार शुगर मिल लि०, चारगोला, पो०प्रा० रतवाड़ी, जिला कठार।	13.31	
10. मैसर्स कै०सी०पी० लि०, पो०प्रा० बय्यम जिला कृष्णा	14.99		<b>बिहार</b>		
11. मैसर्स किश्लामपुड़ी शुगर मिल लि०, पो०प्रा० पिथापुरम, जिला ईस्ट गोदावरी	13.00		1. मैसर्स बेतसुंड शुगर कं० लि०, पो०प्रा० रोया जिला, सीतामढ़ी।	16.38	
12. कोय्यूर कोमपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पोथोरेकु पालम (पास्ट), कोय्यूर तालुक, जिला मिल्कोर।	13.15		2. मैसर्स बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० यूनिट लोहाट, पो०प्रा० लोहाट, जिला मधुबनी।	13.00	
13. मैसर्स नंदयाल कोमपरेटिव शुगर लि०, पन्नापुरम, पोस्ट नंदयाल तालुक, जिला कुन्नूल।	13.00		3. मै० बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट साकरी पो०प्रा० साकरी, जिला मधुबनी।	13.15	
14. मैसर्स निजामाबाद कोमपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पो०प्रा० निजामाबाद, जिला निजामाबाद।	15.91		4. मैसर्स बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट समस्तीपुर, पो०प्रा० समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर।	13.00	
15. निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, नियर परिगी, पो०प्रा० हिन्दूपुर, जिला धनतपुर।	13.76		5. मैसर्स भारत शुगर मिल लि०, पो०प्रा० सिद्धवा, जिला गोपालगंज।	14.38	
16. मैसर्स निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, मयुनगर, पो०प्रा० जहीराबाद, जिला मेरठ।	14.68		6. मैसर्स बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट बरमंडी, पो०प्रा० बनमंडी, जिला मुन्शी।	13.61	
17. मैसर्स निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, मिध्यमेट, पो०प्रा० मेटपल्ली, जिला करीमनगर।	13.92		7. मैसर्स चम्पारन शुगर कं० लि०, बराह फैक्ट्री ब्रांच, पो०प्रा० बाराबकिया, जिला चम्पारन।	13.48	
18. मैसर्स निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, पो०प्रा० मिरयालगुडा, जिला नालगोंडा।	13.00		8. मैसर्स चम्पारन शुगर कं० लि०, जनपतिया फैक्ट्री ब्रांच, पो०प्रा० जनपतिया, जिला चम्पारन।	14.07	
19. मैसर्स निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, पो०प्रा० शक्करनगर, जिला निजामाबाद।	15.14		9. मैसर्स कानपुर शुगर वर्क्स लि०, मड़ौरा फैक्ट्री ब्रांच, पो०प्रा० मड़ौरा, जिला सारन।	13.76	
20. मैसर्स पलाकल कोमपरेटिव शुगर लि०, पो०प्रा० पलाकल, जिला वेस्ट गोदावरी।	13 00		10. मैसर्स गोबिन्द शुगर मिल लि०, लैसी ग्राफ थ्री हनुमान शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, पो०प्रा० मोतीहारी, जिला चम्पारन।	14.99	
21. मैसर्स श्री राम शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, पो०प्रा० सीतामगरम, जिला श्रीकाकुलम।	13.00		11. मैसर्स गुराऊ बीनी मिल, पो०प्रा० गुराऊ मिल, जिला गया।	13.00	
22. मैसर्स श्री राम शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, पो०प्रा० बोम्बिली, जिला श्रीकाकुलम।	13.00		12. मैसर्स हरिनगर शुगर मिल लि०, पो०प्रा० हरिनगर, जिला चम्पारन।	16.36	
23. मैसर्स श्री सर्वराया शुगर लि०, बेल्लूर, जिला ईस्ट गोदावरी।	13.61		13. मैसर्स मोतीलाल प्रमपत उद्योग लि०, पो०प्रा० मसोलिया, जिला चम्पारन।	14.99	
4. मैसर्स श्री लैकटेवर कोमपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, (रेनीगुन्टा), पो०प्रा० गङ्गलामंडयाम, जिला चित्तूर।	13.31		14. मैसर्स मोतीपुर शुगर फैक्ट्री प्रा० लि०, पो०प्रा० मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर।	13.15	
25. मैसर्स श्री विजयाराम गजपति कोमपरेटिव शुगर लि० (थोमसिडी), पो०प्रा० कोरुकोडा, जिला विशाखापत्तनम।	14 38		15. मैसर्स मोहिनी शुगर मिल लि०, पो०प्रा० बारनलीगंज, जिला नवलपरासी।	13 00	
26. मैसर्स बानदावा कोमपरेटिव शुगर लि०, पो०प्रा० पयाकरोपटा, जिला विशाखापत्तनम।	13.00		16. मैसर्स माथे बिहार शुगर मिल लि०, पो०प्रा० नयायपुर, जिला चम्पारन।	13.92	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
17. मैसर्स यू. स्वदेशी श्रृंगर मिल्स लि०, पो०ग्रा० तरकाटेयागंज, जिला चम्पारन ।	15.29		9. मैसर्स श्री मरोली विभाग खाइ उद्योग सहकारी मण्डली लि०, कल्याण नगर, पो०ग्रा० मराला, जिला बालसाह ।	16.36	
18. मैसर्स न्यू इंडिया श्रृंगर मिल्स लि०, पो०ग्रा० हुमनपुर श्रृंगर मिल्स, जिला समस्तीपुर ।	14.99		10. मैसर्स श्री सवान विभाग सहकारी खाइ उद्योग मण्डली लि०, पो०ग्रा० सवान, तालुक भोलवड, जिला सूरत ।	16.06	
19. मैसर्स न्यू सावन श्रृंगर मिल्स, पो०ग्रा० सिवान, जिला सिवान ।	13.00		11. मैसर्स श्री सरदार वल्लभभाई पटेल खाइ उद्योग कोषाग्र० सोसायटी लि०, जमनाबाद रोड, पो०ग्रा० घोराली, जिला राजकोट ।	13.61	
20. मैसर्स श्री कृष्णा ज्ञानोदय श्रृंगर लि०, पो०ग्रा० लौगिया जिला चम्पारन ।	13.92		12. मैसर्स तलाला तालुक सहकारी खाइ उद्योग मण्डली लि०, पो०ग्रा० तलाला (गिर), जिला जूनागढ़ ।	14.53	
21. मैसर्स भृगोली श्रृंगर वर्क्स प्रा० लि०, पो०ग्रा० भृगोली, जिला चम्पारन ।	13.46		13. मैसर्स श्री उता तालुक खेदूत सहकारी खाइ उद्योग मण्डली लि०, पो०ग्रा० उता, जिला जूनागढ़ ।	14.68	
22. मैसर्स सोनलपुर श्रृंगर वर्क्स लि०, पो०ग्रा० गरील, जिला वैशाली ।	13.00		14. मैसर्स श्री बालसाह सहकारी खाइ उद्योग मण्डली लि०, परनेरा पारधी, जिला बालसाह ।	15.45	
23. मैसर्स आसा मुसा श्रृंगर वर्क्स प्रा० लि०, पो०ग्रा० सामा मुसा, जिला गोपालगंज ।	13.61		<b>हरियाणा :</b>		
24. मैसर्स श्री कृष्णा ज्ञानोदय श्रृंगर लि०, पो०ग्रा० मोरगंज, जिला गोपालगंज ।	13.92		1. वि हरियाणा कोषाग्रपरेटिव श्रृंगर मिल्स लि०, रोहतक	14.68	
25. मैसर्स श्री कृष्णा ज्ञानोदय श्रृंगर लि०, पो०ग्रा० सिवान, जिला सिवान ।	13.00		2. दि करनाल कोषाग्रपरेटिव श्रृंगर मिल्स लि०, करनाल	13.46	
26. मैसर्स साउथ बिहार श्रृंगर मिल्स लि०, पो०ग्रा० बिहटा, जिला पटना ।	13.00		3. दि पानीपत कोषाग्रपरेटिव श्रृंगर मिल्स लि०, पानीपत, जिला करनाल ।	13.15	
27. मैसर्स तिरहुत कोषाग्र० श्रृंगर फैक्ट्री लि०, पो०ग्रा० रथाम फैक्ट्री, जिला दरभंगा ।	13.00		4. दि सोनीपत कोषाग्रपरेटिव श्रृंगर मिल्स लि०, सोनीपत ।	13.76	
28. मैसर्स विष्णु श्रृंगर मिल्स लि०, पो०ग्रा० विष्णु श्रृंगर मिल्स, गोपालगंज, जिला गोपालगंज ।	13.76		5. दि सरस्वती श्रृंगर मिल्स, यमुनानगर, जिला अम्बाला ।	13.31	
<b>गोआ :</b>			<b>कर्नाटक :</b>		
1. मैसर्स मंजीवती सहकारी शक्कर कारखाना लि०, दवा-नन्वनगर, उत्तगांव, पोस्ट टिम्का (पोगा)	14.81		1. मैसर्स बिहार सहकारी शक्कर कारखाना लि०, हल्लीखेव एस०एफ०, जिला बिहार	15.60	
<b>गुजरात :</b>			2. मैसर्स भद्रा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, डोडावली, दावनगिरी, तालुक, जिला चित्रदुर्ग ।	16.06	
1. मर्वा रतनेरा सहकारी खाइ उद्योग लि०, रतनेरा, जिला अमरेली ।	13.46		3. मैसर्स दावनगिरी श्रृंगर क० लि०, कूकावादा, तालुक दावनगिरी, जिला चित्रदुर्ग ।	15.45	
2. मैसर्स बरोतर सहकारी खाइ उद्योग मण्डली लि०, पो०ग्रा० पलाज, तालुक पेटलड, जिला कैरा ।	13.31		4. मैसर्स गोरीबिदनूर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०ग्रा० गोरीबिदनूर, जिला कोलार ।	15.14	
3. मैसर्स श्री बिलेश्वर खाइ उद्योग खेदूत सहकारी मंडली लि०, पो०ग्रा० काडीनार, जिला अमरेली ।	14.53		5. मैसर्स गोदावरी श्रृंगर मिल्स लि०, समीखाडी, बाया महासिंगपुर, तालुक मुखहल, जिला बिजापुर ।	16.52	
4. मैसर्स श्री सवान विभाग खाइ उद्योग सहकारी मंडली लि०, पो०ग्रा० सवान, जिला सूरत ।	16.98		6. मैसर्स शाटप्रभा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, पो०ग्रा० गोकक, जिला बेलगांव ।	16.82	
5. मैसर्स श्री खेदूत सहकारी खाइ उद्योग मण्डली लि०, पो०ग्रा० सरदार बाग, बसन-बादोली, जिला सूरत ।	16.67		7. मैसर्स गंगावती श्रृंगर लि०, पोस्ट प्रगति नगर, तालुक गंगावती, जिला रायचूर ।	13.00	
6. मैसर्स सहकारी खाइ उद्योग मण्डली लि०, पो०ग्रा० गनदेवी, बाया बिल्लीवांग, जिला बुसर ।	16.67		8. मैसर्स हिरणियाकेरी सहकारी शक्कर कारखाना नियमित पो०ग्रा० सकेश्वर, जिला बेलगांव ।	17.74	
7. मैसर्स श्री मधी विभाग खाइ उद्योग सहकारी मण्डली लि०, पो०ग्रा० नधी, जिला सूरत ।	17.28		9. मैसर्स इंडिया श्रृंगर एण्ड रिफाइनरीज लि०, पो०ग्रा० होसपेड, जिला बिल्लारी ।	16.21	
8. मैसर्स श्री महुवा प्रसाद सहकारी खाइ उद्योग मण्डली लि०, पो०ग्रा० जेम्बावग, तालुक महुवा, जिला सूरत ।	16.52		10. मैसर्स काम्पली कोषाग्रपरेटिव श्रृंगर फैक्ट्री लि०, पो०ग्रा० काम्पली श्रृंगर फैक्ट्री, जिला बिल्लारी ।	14.38	
			11. मैसर्स कोठारी श्रृंगर एण्ड कैमिकल्स लि०, पो०ग्रा० दसनन, जिला बिल्लारी ।	14.99	
			12. मैसर्स मैसूर श्रृंगर क० लि०, पो०ग्रा० मांड्या, जिला मांड्या ।	15.91	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
13. मैसर्स पाण्डवपुरा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०प्रा० पाण्डवपुरा, जिला रायचूर।	16.36		महाराष्ट्र.		
14. मैसर्स रायबाग सहकारी शक्कर कारखाना निगमित, पो०प्रा० रायबाग, जिला बेल्गांव।	16.82		1. मैसर्स अम्बाजोगई सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० अम्बाजोगई, तालुक अम्बाजोगई, जिला नांदेड।	15.60	
15. मैसर्स सलार जंग शुगर मिल्स, पो०प्रा० मुनिगाबाद, जिला रायचूर।	15.48		2. मैसर्स अशोक पहलारे शक्कर कारखाना लि०, अशोक-नगर, पोस्ट काग्यांव कैस्ट्रो, तालुक थारानपुर, जिला अहमदनगर।	15.91	
16. मैसर्स बालीविहास कोप्रापरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पो०प्रा० हरियूर, जिला चित्रदुर्ग।	15.45		3. मैसर्स बालावाडे देसाई सहकारी शक्कर कारखाना लि०, दौलतनगर (मराठा), तालुक पाटन, जिला सतारा।	18.05	
17. मैसर्स श्री मालाप्रभा कोप्रापरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, एम०के० हुबली, जिला बेल्गांव।	17.28		4. मैसर्स बेलातुर शुगर एण्ड एनाइड इंस्ट्रुमेंट्स लि०, पो०प्रा० हरियांव, जिला अहमदनगर।	16.52	
18. मैसर्स श्री बृधंगा कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना निगमित, पो०प्रा० विक्कोडी, जिला बेल्गांव।	17.28		5. मैसर्स बेलांगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, (बोराम), पो०प्रा० चालीसगांव, जिला अहमदनगर।	15.45	
19. मैसर्स श्री चमुदेश्वरी शुगर लि०, कलामुडावा दोधी, तालुक मडनूर, जिला मांढरा।	15.91		6. मैसर्स भीमा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०प्रा० पटास, तहसील दीव, जिला पुणे।	16.67	
20. मैसर्स श्री महादेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०प्रा० कुंभु, कोलेगल, जिला मीसूर।	14.22		7. मैसर्स भीमा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, नरनी शिकंदर, तालुक महोद, जिला सोलापुर।	14.99	
21. मैसर्स श्री भीराम सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कृष्णानगर, मीसूर रोड, जिला मीसूर।	14.68		8. मैसर्स शोवावती सहकारी शक्कर कारखाना लि०, इरवे वैराग, तालुक धारमी, जिला सोलापुर।	14.99	
22. मैसर्स धुंगमरा शुगर वर्क्स (प्रा०) लि०, पो०प्रा० शिमोगा, जिला शिमोगा।	16.82		9. मैसर्स त्रया शुगर लि०, पो०प्रा० श्रीपुर, तालुक माव-जिरास, जिला सोलापुर।	16.36	
23. मैसर्स चगर शुगर वर्क्स लि०, पो०प्रा० उगरखुर्द, जिला बेल्गांव।	17.28		10. मैसर्स छत्रवति सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भवानी-नगर, तालुक बर्यापुर, जिला पुणे।	16.98	
केरल			11. मैसर्स दीन शैवकांगे सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०प्रा० हनुकरनी, तालुक नंदगड, जिला कोल्हापुर।	18.81	
1. मैसर्स बि कोप्रापरेटिव शुगर लि०, चिन्नूर, पो०प्रा० मेननपाड़ा, जिला पाणजाद।	13.46		12. श्री दयनिश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भांडे, पो०के० तालुक नवासा, जिला अहमदनगर।	16.98	
2. मैसर्स मल्लम शुगर मिल्स कोप्राप० लि०, पो०प्रा० पांडवम, जिला अल्लेप्पी।	13.00		13. मैसर्स गांधीगलाज तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०प्रा० गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर।	18.05	
3. मैसर्स द्रावतकीर शुगर एण्ड केमिकल्स लि०, बालन-जवाडटम, पो०प्रा० तिस्बल्ला, जिला अल्लेप्पी।	13.00		14. मैसर्स गंगापुर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, रघुनाथ-नगर, जिला श्रीरंगगावा।	15.14	
मध्य प्रदेश :			15. मैसर्स गिरना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, दभादे तालुक मापेगांव, जिला नासिक।	16.52	
1. मैसर्स भोपाल शुगर इंस्ट्रुमेंट्स लि०, पो०प्रा० सिहोर, जिला सिहोर।	14.22		16. मैसर्स गारावरी दुर्गना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, देवनादरा, पोस्ट एण्ड तालुक पट्टरी, जिला परभानी।	14.99	
2. मैसर्स ग्वालियर शुगर कं० लि०, पो०प्रा० डबरा, जिला ग्वालियर।	14.68		17. मैसर्स गोदावरी मतार सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शहर नगर, पोस्ट रामनोरी, तालुक जिनोती, जिला नंदेड।	14.68	
3. मैसर्स जीवाजी राव शुगर कं० लि०, पो०प्रा० दलीदा, जिला मंसौर।	13.00		18. मैसर्स गोदावरी शुगर मिल्स लि०, पो०प्रा० लक्ष्मीवारी, बाया कोपरगांव, जिला अहमदनगर।	16.06	
4. मैसर्स जावरा शुगर मिल्स प्रा० लि०, पो०प्रा० जावरा, जिला रसलाम।	13.48		19. मैसर्स गोदावरी शुगर मिल्स लि०, पो०प्रा० शकरवाडी, बाया कन्हेगांव, जिला अहमदनगर।	16.06	
5. मैसर्स मुरेना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० प्रा० कैलारस, जिला मुरेना।	13.00		20. मैसर्स जय भवानी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०प्रा० गोरई जिला बीड।	14.99	
6. मैसर्स मालवा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बरलाई (आमोपरा), जिला इन्दौर।	14.07		21. मैसर्स जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लि०, दुसारखोद तालुक मेहकर, जिला बुन्डाना।	14.53	
7. मैसर्स मेह गोविन्दराम शुगर मिल्स, पो०प्रा० मेहवीपुर रोड, जिला उज्जैन।	13.13				

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
22	मैसर्स कांदा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० कांदा, तालुक अस्ते, जिला बीड।	14 99	43	मैसर्स राह्यादरो सहकारी शक्कर कारखाना लि० यशवत-नगर, तालुक कराड, जिला सतारा।	18 20
23	मैसर्स फाडवा गन्नाकारण शक्कर कारखाना लि० मेतेरे वाडा, तालुक शिंदारे, जिला नासिक।	15 60	44	मैसर्स सगमनेर भाग सहकारी शक्कर कारखाना लि०, अमनतनगर, तालुक सगमनेर, जिला अहमदनगर।	17 28
24	मैसर्स कलम्बर विभाग सहकारी शक्कर कारखाना लि० कलम्बर पट पोस्ट गंधीनगर, तालुक कंधार, जिला महेंद्र।	11 84	45	मैसर्स सजोतना (टाफनी) सहकारी शक्कर कारखाना लि० पोस्ट शिपनापुर, तालुक कोपरगाव जिला अहमदनगर।	16 57
25	मैसर्स कन्नड सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० कन्नड, जिला श्रीरामबाद।	14 54	46	मैसर्स मतारा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भुज, पो० ब्रा० किमानवीर नगर, तालुक बार्ड, जिला सतारा।	17 28
26	मैसर्स कर्मवीर काकासाहेब बाण सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पोस्ट रनवाड, तालुक निकाड, जिला नासिक।	16 52	47	मैसर्स शेनकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० सगली, जिला सगली।	17 74
27	मैसर्स कोल्हापुर केन शार बर्क लि०, कपडा बगसा, जिला कोल्हापुर।	17 59	48	मैसर्स शेनकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० किलारी, जिला उस्मानाबाद।	14 84
28	मैसर्स कोपरगाव सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गौतम नगर, पोस्ट कोपडावाडा, जिला अहमदनगर।	17 28	49	मैसर्स समबाद माली शुगर फैक्ट्री लि०, पो० ब्रा० मालीनगर, जिला कोल्हापुर।	15 75
29	मैसर्स कृष्ण सहकारी शक्कर कारखाना लि०, रेणारे बुवळक, पो० ब्रा० शिवनगर, जिला सतारा।	18 51	50	मैसर्स श्री भागवती सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शाहूनगर, तालुक कर्धीर, जिला कोल्हापुर।	19 12
30	मैसर्स कुम्भी केसरा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कुदिनरे, तालुक कापूर, जिला कोल्हापुर।	18 51	51	मैसर्स श्री चांगदेव शुगर मिल्स लि०, पो० ब्रा० चांगदेव नगर, जिला अहमदनगर।	15 60
31	मैसर्स मधुकर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० फेजपुर, जिला जलगाव।	14 99	52	मैसर्स श्री छत्रपति साहेब सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० कागल, जिला कोल्हापुर।	18 35
32	मैसर्स महाराष्ट्र शुगर मिल्स लि०, पो० ब्रा० निवहनगर, जिला अहमदनगर।	16 92	53	मैसर्स श्री पञ्चगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गगा-नगर इचलकराजी, जिला कोल्हापुर।	18 20
33	मैसर्स मानेगाव सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मानेगाव बो०के० (शिवनगर) तालुक बारापती, जिला पुणे।	17 28	54	मैसर्स श्री सत इन्डिया सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पैठान, जिला श्रीरामबाद।	15 14
34	मैसर्स मराठावाडा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पोस्ट बोगरकडा, तालुक कानमनर, जिला प्रभाणी।	15 29	55	मैसर्स श्री विश्वेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कुम्भे, पोस्ट तिकेकरवाडो, जिला कोल्हापुर।	16 82
35	मैसर्स मुला सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पोस्ट सोनई, तालुक नवासा, जिला अहमदनगर।	16 06	56	मैसर्स श्री सतपडा ताफोपरिमर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० पुरुषोत्तमनगर, तालुक साहावा, जिला धुलिया।	15 29
36	मैसर्स नासिक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पालमे, जिला नासिक।	16 36	57	मैसर्स श्री सोमेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० नीरा, जिला पुणे।	17 74
37	मैसर्स निफाड सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पोस्ट भोसाहेबनगर, तालुक निकाड, जिला नासिक।	17 59	58	मैसर्स श्री वत्ता शेनकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, तालुक शिरोल, जिला कोल्हापुर।	18 81
38	मैसर्स फाटन शुगर वर्क्स लि०, पो० ब्रा० शक्करवाडी, जिला सतारा।	17 28	59	मैसर्स श्री बारता सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० बारतानगर, तालुक पनहला, जिला कोल्हापुर।	18 81
39	मैसर्स प्रयाग सहकारी शक्कर कारखाना लि०, प्रयागनगर, जिला अहमदनगर।	16 36	60	मैसर्स श्री घुघर्गंगा वेदगंगा सहकारी शक्कर लि०, बिबरो (प्रौढीनगर), तालुक कागल, जिला कोल्हापुर।	17 28
40	मैसर्स पूरना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० बसुमथनगर, जिला परभानी।	15 45	61	मैसर्स श्री गणेश सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गणेशनगर, पो० ब्रा० रजनगाव खुर्द, तालुक कोपरगाव, जिला अहमदनगर।	16 36
41	मैसर्स राहुरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, श्री शिवाजी नगर, पोस्ट राहुरी फैक्ट्री, जिला अहमदनगर।	16 52	62	मैसर्स श्री गोडा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, श्री गोडा फैक्ट्री, जिला अहमदनगर।	16 21
42	मैसर्स रावलगाव शुगर फार्म लि०, पो० ब्रा० रावलगाव, जिला नासिक।	15 45	63	मैसर्स श्री जगदम्बा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, रश्मिन, तालुक कर्जत, जिला अहमदनगर।	15 91
			64	मैसर्स श्री पत्राखा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भादने, तालुक सकरी, जिला धुलिया।	15 29

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
65.	मैसर्स श्रीराम सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० भ्रा० फाल्टन, जिला सतारा ।	16. 67	2.	दि दोभाबा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, नवाशहर, जिला जलन्धर ।	15. 75
66.	मैसर्स श्री शंकर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पोस्ट सदाशिवनगर, तालुक मयशीराम, जिला शोलापुर ।	16. 82	3.	वि अगतजीत शुगर मिल्स लि०, फगवाड़ा, जिला कपूरथला	14. 68
67.	मैसर्स श्री विद्याल सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गुरुसाने, तालुक पठारपुर, जिला शोलापुर ।	15. 60	4.	बि जनता कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, भांगपुर, जिला जलन्धर ।	15. 60
68.	मैसर्स मिड्देष्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मानिक नगर, तालुक मिर्जोड, जिला श्रीरंगबाद ।	15. 29	5.	दि मोंरिडा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, मोंरिडा, जिला रूपनगर ।	15. 91
69.	मैसर्स श्री विरद्वेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० भ्रा० विरद्वेश्वर शक्कर कारखाना, तालुक पठारदी, जिला ग्रहमदनगर ।	14. 84	6.	दि मालवा शुगर मिल्स लि०, धुरी, जिला सगर ।	14. 07
70.	मैसर्स तेरना शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, होकी, पोस्ट तेरनानगर, जिला श्रीरंगबाद ।	15. 60	7.	दि पंजाब खांड उद्योग लि०, (पनियार), जिला गुरदासपुर ।	16. 82
71.	मैसर्स बभ्रत सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० भ्रा० कसोडा, तालुक बराडोल, जिला जलगांव ।	14. 68	8.	दि पंजाब उद्योग लि० जोरा, जिला फिरोजपुर ।	15. 91
72.	मैसर्स वसन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० भ्रा० पुसाद, जिला यवतमाल ।	15. 91	<b>राजस्थान</b>		
73.	मैसर्स विनायक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, परसोदा, पोस्ट देवचन्दनगरी, तालुक वैजापुर, जिला श्रीरंगबाद ।	16. 82	1.	मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स लि०, पो० भ्रा० श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर ।	13. 00
74.	मैसर्स विश्वास सहकारी शक्कर कारखाना लि०, यशवंत-नगर, तालुक शिराला, जिला सांगली ।	17. 74	2.	मैसर्स मेवाड़ शुगर मिल्स लि०, पो० भ्रा० भूपालनागर, जिला चित्तौड़गढ़ ।	14. 68
75.	मैसर्स वालरा तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० इस्वामपुर, तालुक वालरा, जिला सांगली ।	18. 35	3.	मैसर्स श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि०, पो० भ्रा० केशोरायपाटन, जिला बुंदी ।	15. 29
76.	मैसर्स बाजचन्दनगर इंडस्ट्रीज लि०, पो० भ्रा० बालचन्दनगर, जिला पुणे ।	16. 21	<b>तमिलनाडु</b>		
77.	मैसर्स यशवन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०, प्रकलुज, पोस्ट यशवन्तनगर, तालुक मालमौरस, जिला शोलापुर ।	16. 36	1.	मैसर्स भ्रमरावली कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, कुष्णापुरम पो० भ्रा०, जिला कोयम्बतूर ।	14. 53
78.	मैसर्स यशवन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०, चिन्तामणि-नगर, पो० भ्रा० येयर, जिला पुणे ।	16. 21	2.	मैसर्स भ्रम्बर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० भ्रा० बाबापुडेट, जिला तारुध्रकराट ।	15. 60
<b>नागालैण्ड</b>			3.	मैसर्स भरीगनार भसा शुगर मिल्स लि०, पो० भ्रा० कुकुलम, जिला बजावर ।	15. 14
1.	मैसर्स नागालैण्ड शुगर मिल्स लि०, पो० भ्रा० दोमापुर (नागालैण्ड)	14. 38	4.	मैसर्स धरुणा शुगर लि०, पो० भ्रा० पन्नाडम, जिला साउथ धरकाट ।	15. 14
<b>उड़ीसा</b>			5.	मैसर्स कावेरी शुगर एण्ड केमिकल्स लि०, पो० भ्रा० पेठेवैतलाई, तिरुची ।	16. 21
1.	मैसर्स अस्का कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लि०, पो० भ्रा० अस्का, जिला गंजम ।	13. 46	6.	मैसर्स चेंगसावयम कोआपरेटिव शुगर लि०, पो० भ्रा० पेरियासेवासई, उलम्पेट तालुक, जिला साउथ धरकाट ।	14. 53
2.	मैसर्स बरगड कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० भ्रा० डोगा (बरगड) जिला सम्बलपुर ।	13. 00	7.	मैसर्स डकन शुगर एण्ड आधकारी लि०, पुगलूर शुगर पीक्की, जिला तिरुची ।	14. 07
3.	मैसर्स जयपुर शुगर लि०, पो० भ्रा० रायगडा, जिला कोरापुट ।	14. 38	8.	मैसर्स धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० भ्रा० पालाकोडे, जिला धर्मपुरी ।	15. 91
<b>पश्चिमी</b>			9.	मैसर्स ई० भ्रा० ई० पी० वैरी लि०, पो० भ्रा० नेल्लीकुप्पम, जिला साउथ धरकाट ।	13. 00
1.	मैसर्स न्यूहैरिजन शुगर मिल्स लि०, मकूर (धरियर), पो० भ्रा० कंदमंगलम, पश्चिमी ।	14. 38	10.	मैसर्स जवाहरलाल नेहरू शुगर मिल्स लि०, पो० भ्रा० ईरईयूर, पम्बलूर, तालुक, जिला तिरुची ।	15. 75
<b>पंजाब</b>			11.	मैसर्स कल्लाकुरिची कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० भ्रा० मूगीसगुरईपट्ट, जिला साउथ धरकाट ।	14. 84
1.	दि बटाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, बटाला, जिला गुरदासपुर ।	17. 28	12.	मैसर्स कोठारी शुगर एण्ड केमिकल्स लि०, कडूर, तालुक लालगुडी, जिला तिरुची ।	14. 68
			13.	मैसर्स मदुरा शुगर लि०, पांड्याराजापुरम. (वाया) कोडई-कनाल रोड पो० ए०, जिला मदुरै ।	13. 15

1	2	3	1	2	3
14.	मैसर्स मधुसूदन कृष्ण कोम्पापरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० धा० पञ्चालम, जिला चिगुलेपुड ।	14.38	19.	दि गंगेश्वर लि०, देवबन्द, जिला सहारनपुर	14.68
15.	मैसर्स नेशनल कोम्पापरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० धा० मेट्टपत्ती, वाया अलागलेत्तूर, जिला मद्राई ।	15.45	20.	दि गोविन्द शुगर मिल्स लि०, ऐरा हस्टेट, जिला खीरी ।	14.99
16.	मैसर्स शक्ति शुगर लि०, शक्तिनगर, पो० धा० हरिद्वार धार० एम०एस०, जिला पेरियार ।	15.45	21.	दि गंगेश्वर लि०, रामकोला, जिला देवरिया ।	14.84
17.	मैसर्स सालेम कोम्पापरेटिव शुगर मिल्स लि०, मोहनूर, जिला सालेम ।	14.38	22.	दि हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि०, गोलगोकर्णम, जिला खीरी ।	15.45
18.	मैसर्स साउथ इण्डिया शुगर लि०, पो० धा० बुडियामपक्कम्, तालुक विल्लुपुरम, जिला साउथ मरकाट ।	13.31	23.	दि ए०आर० शुगर फैक्ट्री, प्रा० लि०, बरेली जिला बरेली ।	13.15
19.	मैसर्स शिव धरम शुगर लि०, पो० धा० बाहापाचिमंगलम, जिला बंजानूर ।	14.84	24.	दि जयवन्त शुगर मिल्स लि०, मेरठ सीटी, जिला मेरठ ।	14.22
20.	मैसर्स निशपट्टर कोम्पापरेटिव शुगर मिल्स लि०, केम्बोपत्ती, बानीयमवाडी तालुक, जिला नाथ मरकाट ।	15.75	25.	श्री ज्ञानकी शुगर मिल्स एण्ड कं०, डोईवाला, जिला देहरादून	13.92
21.	मैसर्स विल्लोर कोम्पापरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० धा० विल्लोर शुगर मिल्स, ग्राम अनुमण्डी, जिला नाथ मरकाट ।	14.38	26.	दि किसान कोम्पापरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, सरसवा, जिला सहारनपुर ।	13.92
<b>उत्तर प्रदेश</b>			27.	दि कैमर शुगर वर्क्स लि०, बन्नेही, जिला बरेली ।	14.84
1.	दि अमृतसर शुगर मिल्स कं० लि०, रोहना-कलां, पो० धा० रोहना, जिला मुजफ्फरनगर ।	15.14	28.	दि किसान कोम्पापरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, मसोला, जिला पीलीभीत ।	14.53
2.	दि अजुइवा शुगर मिल्स, राजा-का-सहासपुर, जिला मुराबाबाद ।	14.8	29.	दि किसान सहकारी बीनी मिल्स लि०, अनुपमहर, जहांगीराबाद, जिला मुसम्बहूर ।	15.75
3.	दि बानपत कोम्पापरेटिव शुगर मिल्स लि०, बागपत, जिला मेरठ ।	15.29	30.	दि किसान सहकारी बीनी मिल्स लि०, साठा, जिला अलीगढ़	14.07
4.	दि बाजपुर कोम्पापरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, बाजपुर, जिला नैनीताल ।	15.20	31.	दि किसान सहकारी बीनी मिल्स लि०, ननौटा, जिला सहारनपुर ।	14.68
5.	दि किसानपुर किसान सहकारी बीनी मिल्स लि०, किसानपुर, जिला पीलीभीत ।	14.68	32.	दि मिच्छा शुगर कं० लि०, किच्छा, जिला नैनीताल ।	15.45
6.	दि बस्ती शुगर मिल्स कं० लि०, ककलटरगंज, जिला बस्ती ।	14.99	33.	दि गिमान सहकारी बीनी मिल्स लि०, कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद ।	15.14
7.	दि बस्ती शुगर मिल्स कं० लि०, जिला बस्ती ।	13.67	34.	दि किसान सहकारी बीनी मिल्स लि०, जिला बदायूं ।	14.84
8.	दि बुढवल शुगर कं० लि०, बुढवल, जिला बाराबंकी ।	13.46	35.	दि किसान सहकारी बीनी मिल्स लि०, राजपुर-पूरनपुर-नवेही जसपुर, जिला नैनीताल ।	14.07
9.	दि बलरामपुर बीनी मिल्स लि०, बलरामपुर, जिला गोंडा ।	15.60	36.	दि किसान सहकारी बीनी मिल्स लि०, तिसहर, जिला शाहजहांपुर ।	13.61
10.	दि बानपुर शुगर वर्क्स लि०, गौरी फैक्ट्री बान, गौरीबाजार, जिला देवरिया ।	13.61	37.	दि के०एम० शुगर मिल्स लि०, मोतीनगर, जिला फैजाबाद ।	14.68
11.	दि छाता शुगर कं० लि०, छाता, जिला मधुवा ।	13.92	38.	दि काशी सहकारी बीनी मिल्स लि०, धौराई, जिला बाराबंकी	14.68
12.	दि चान्दपुर शुगर कं० लि०, चान्दपुर, जिला बिजनौर	14.84	39.	दि किसान सहकारी बीनी मिल्स लि०, रसदा, जिला बलिया ।	13.61
13.	दि कानपुर शुगर वर्क्स लि०, पड़रौता फैक्ट्री ब्रांच, पड़रौता, जिला देवरिया ।	14.38	40.	दि किसान सहकारी बीनी मिल्स लि०, सठियाल, जिला आजमगढ़ ।	13.92
14.	दि कानपुर शुगर वर्क्स लि०, कठकुइयां, फैक्ट्री ब्रांच, कठकुइयां, जिला देवरिया ।	14.22	41.	दि लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स लि०, जिला सहारनपुर	13.00
15.	दि दौगला शुगर वर्क्स, दोराला, जिला मेरठ ।	16.21	42.	दि एल०एच० शुगर फैक्ट्रीज लि०, जिला पीलीभीत ।	14.68
16.	दि धामपुर शुगर मिल्स लि०, धामपुर, जिला बिजनौर ।	13.76	43.	दि लक्ष्मीजी शुगर मिल्स प्रा० लि०, महोली, जिला सीतापुर	15.14
17.	दि देवरिया शुगर मिल्स लि०, जिला देवरिया ।	14.22	44.	दि लक्ष्मी शुगर एण्ड प्रायल मिल्स लि०, हूरदोई, जिला हूरदोई ।	14.07
18.	दि एक्सप्रेसिमेंटल शुगर फैक्ट्री, (नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट), कल्याणपुर, जिला कानपुर ।	13.00	45.	दि एल०एच० शुगर फैक्ट्रीज लि०, भागोपुर, जिला नैनीताल ।	14.22
			46.	दि लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स प्रा० लि०, छितौनी, जिला देवरिया ।	13.31
			47.	दि मोदी इण्डस्ट्रीज लि०, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद	15.75
			48.	दि मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, जिला मेरठ ।	15.75
			49.	दि महालक्ष्मी शुगर मिल्स कं० लि०, इकबालपुर, जिला सहारनपुर ।	14.22

1	2	3	(1)	(2)	(3)
50.	दि माधो महेण शुगर मिल्स प्रा० लि०, मुबेरखा, जिला बस्ती ।	13.61	74.	दि सेकसरिया शुगर मिल्स लि०, बलाना, जिला गौडा ।	15.29
51.	दि महाबीर शुगर मिल्स प्रा० लि०, मिमनाबाजार, जिला गोरखपुर ।	13.76	75.	दि स्वदेशी साहनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, (अनन्द शुगर मिल्स खलीला-बाव, जिला बस्ती)	14.99
52.	दि नेबली शुगर फैक्ट्री मानपुरनागरिया, नेवली, जिला एटा ।	14.99	76.	दि स्वदेशी साहनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० (गणेश शुगर मिल्स) आनन्दनगर, जिला खोसोरखपुर ।	15.14
53.	दि नवाबगंज शुगर मिल्स कं० लि०, शुगर फैक्ट्री, जिला गौडा ।	14.68	77.	दि सरया शुगर मिल्स प्रा० लि०, सरदारनगर, जिला गोरखपुर ।	14.84
54.	दि नन्दगंज शिहोरी शुगर कं० लि०, नन्दगंज, तहसील सेवपुर, जिला गाजीपुर ।	13.00	78.	दि लिनेपी इजीनियरिंग वर्क्स लि०, (शुगर यूनिट) अपर इण्डिया मिल्स, खलीला, जिला मुजफ्फरनगर ।	14.99
55.	दि नन्दगंज शिहोरी शुगर कं० लि०, दरियापुर यूनिट, दरियापुर, जिला रायबरेली ।	14.68	79.	दि तुलसीपुर शुगर कं० लि०, तुलसीपुर, जिला गौडा ।	14.84
56.	दि अरघ शुगर मिल्स लि०, हरगांव, जिला सीतापुर ।	14.99	80.	दि अपर गंगेज शुगर मिल्स लि०, शिवहारा, जिला बिजनौर ।	14.68
57.	दि पक्षीजी शुगर एण्ड जनरल मिल्स लि०, पक्षीनगर, बुलन्दशहर जिला ।	13.31	81.	दि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० यूनिट अमरोहा, जिला मुरादाबाद ।	14.22
58.	दि पंजाब शुगर मिल्स कं० लि०, धुधली, जिला गोरखपुर ।	13.61	82.	दि यूनाइटेड प्रोविन्सेज शुगर कं० लि०, शिवगढ़ा, जिला देवरिया ।	14.22
59.	दि प्रतापपुर शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, प्रतापपुर, जिला देवरिया ।	14.68	83.	दि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट बाराबंकी, जिला बाराबंकी ।	13.46
60.	दि रायबहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स (प्रा०) लि०, जिला सहारनपुर ।	14.22	84.	दि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट जरवल रोड, जिला बहराइच ।	13.00
61.	दि रोजा शुगर वर्क्स आफ के० एण्ड कं० लि०, रोजा, लखन जिला शाहजहापुर ।	14.84	85.	दि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट लक्ष्मीगंज, जिला देवरिया ।	14.07
62.	दि रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि०, रमाला, जिला मेरठ ।	14.22	86.	दि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट रामकोला, रामकोला, जिला देवरिया ।	14.07
63.	दि रतना शुगर मिल्स कं० लि०, शाहगंज, जिला जौनपुर ।	13.00	87.	दि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट भटनी, भटनी, जिला देवरिया ।	13.92
64.	दि रत्नाबुलन्द शुगर कं० लि०, जिला रामपुर ।	14.53	88.	दि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट राजाबाजार खड्डा, जिला देवरिया ।	14.22
65.	दि रुद्र बिलास किसान सहकारी चीनी, मिन्स लि०, बिलासपुर, जिला रामपुर ।	13.46	89.	दि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट पिपराइच, पिपराइच, जिला गोरखपुर ।	14.22
66.	दि सिम्भावली शुगर मिल्स लि०, सिम्भावली, जिला गाजियाबाद ।	16.21	90.	दि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट मोहिउद्दीनपुर, जिला मेरठ ।	14.53
67.	दि स्वरूप बेगीटेबल प्रोडक्ट्स इण्डस्ट्रीज लि०, मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर ।	14.53	91.	दि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट मखोटोडांवा, जिला मेरठ ।	14.07
68.	दि शिवप्रसाद बनारसीदास शुगर मिल्स, बिजनौर, जिला बिजनौर ।	14.07	92.	दि अपर दोआब शुगर मिल्स लि०, शामली, जिला मुजफ्फरनगर ।	14.53
69.	दि सेकसरिया बिस्वान शुगर फैक्ट्री लि०, बिस्वान, जिला सीतापुर ।	15.45	<b>पश्चिमी बंगाल</b>		
70.	श्री मोताराम शुगर कं० लि०, बैतालपुर, जिला देवरिया ।	14.22	1.	मैसर्स ग्रहमदपुर शुगर मिल्स, पो० ग्रा० ग्रहमदपुर, जिला बीरभूम ।	14.38
71.	दि शंकर एग्रो इण्डस्ट्रीज लि०, कौटनगंज, जिला देवरिया ।	14.84	2.	मैसर्स रामनगर केन एण्ड शुगर कं० लि०, पो० ग्रा० प्लासी, जिला नादिया ।	14.07
72.	दि शारदा शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, पलिया कला, जिला खीरी ।	14.68			
73.	दि सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि०, बिलराया, जिला लखीमपुर-खीरी ।	13.76			

[सं० 3-3/82-एस०पी०वाई० (डी०-II)]

बी०सी० गंगोपाध्याय, सचिव



## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 1982

G.S.R. 708(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 13.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 15.2941 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, hereby fixes the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in Column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 1982-83, ending the 30th September, 1983, subject to the rebates, payable, therefor, under clause 3A of the said Order.

## SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
1	2	3

## ANDHRA PRADESH

1.	M/s. Amadalavalasa Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., PO Amadalavalasa, District Srikakulam.	14.68
2.	M/s. Anakpalle Cooperative Agricultural & Industrial Society Ltd., Thummapala, PO Anakpalle, District Visakhapatnam.	13.15
3.	M/s. Andhra Sugars Ltd., Tanuku, District West Godavari.	13.92
4.	M/s. Challapalli Sugar Ltd., P.O. Challapalli, District Krishna.	13.00
5.	M/s. Chittoor Cooperative Sugars Ltd., PO Tsavatapalle, District Chittoor.	14.22
6.	M/s. Chodavaram Cooperative Sugars Ltd., PO Govada, District Visakhapatnam.	13.00
7.	M/s. Cuddapah Coop. Sugars Ltd., Doulatpuram, Via Chennur, District Cuddapah.	13.00
8.	M/s. Deccan Sugar & Abkhari Co. Ltd., PO Samalkot, District E. Godavari.	13.46
9.	M/s. Etikoppaka Cooperative Agricultural & Industrial Society Ltd., PO Etikoppaka, District Visakhapatnam.	13.00
10.	M/s. K.C.P. Ltd., PO Vuyyuru, District Krishna.	14.99
11.	M/s. Kirlampudi Sugar Mills Ltd., PO Pithapuram, District E. Godavari.	13.00
12.	M/s. Kovur Coop. Sugar Factory Ltd., Potheireddypalam (Post), Kovur Taluk, District Nellore.	13.15

13.	M/s. Nandyal Coop. Sugars Ltd., Ponnapuram Post, Nandyal Tq. District Kurnool.	13.00
14.	M/s. Nizamabad Cooperative Sugar Factory Ltd., PO Nizamabad, District Nizamabad.	15.91
15.	M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., Near Parigi, PO Hindupur, District Anantapur.	13.76
16.	M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., Madhunagar, PO Zaheerabad, District Medak.	14.68
17.	M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., Mithyampet, PO Metpalli, District Karimnagar.	13.92
18.	M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., PO Miryalguda, District Nalgonda.	13.00
19.	M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., PO Shakarnagar, District Nizamabad.	15.14
20.	M/s. Palakol Cooperative Sugars Ltd., PO Palakol, District West Godavari.	13.00
21.	M/s. Shree Rama Sugar & Industries Ltd., PO Seethanagaram, District Srikakulam.	13.00
22.	M/s. Sri Rama Sugars & Industries Ltd., PO Bobbili, District Srikakulam.	13.00
23.	M/s. Sri Sarvaraya Sugars Ltd., Chelluru, District East Godavari.	13.61
24.	M/s. Sri Venkateswara Cooperative Sugar Factory Ltd., Renugunta, PO Gazulamandam, District Chittoor.	13.31
25.	M/s. Sri Vijayarama Gajapathi Coop. Sugars Ltd., (Bhimasingi), PO Korukonda, District Visakhapatnam.	14.38
26.	M/s. Thandava Cooperative Sugars Ltd., PO Payakaraopeta, District Visakhapatnam.	13.00
27.	M/s. V.V.S. Sugars, PO Chagallu, District West Godavari.	14.53
28.	M/s. West Godavari Cooperative Sugars Ltd., PO Bhimadole, District West Godavari.	13.00

## ASSAM

1.	M/s. Assam Cooperative Sugars Mills Ltd., P.O. Barua Bamungaon, District Sibsagar.	13.61
2.	M/s. Cachar Sugar Mills Ltd., Chargola, P.O. Ratabari, District Cachar.	13.31

## BIHAR

1.	M/s. Belsund Sugar Co. Ltd., P.O. Righa, Distt. Sitamarhi.	16.36
2.	M/s. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit Lohat, P.O. Lohat, Distt. Madhubani.	13.00
3.	M/s. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit Sakri, P.O. Sakri, Distt. Madhubani.	13.15
4.	M/s. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit Samastipur, P.O. Samastipur, Distt. Samastipur.	13.00
5.	M/s. Bharat Sugar Mills Ltd., P.O. Sidhwalia, Distt. Gopalganj.	14.38
6.	M/s. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit Banmankhi, P.O. Banmankhi, District Purnea.	13.61
7.	M/s. Champaran Sugar Co. Ltd., Barrah Factory Branch, P.O. Barachakia, Distt. Champaran.	14.38
8.	M/s. Champaran Sugar Co. Ltd., Chanpatia Factory Branch P.O. Chanpatia Distt. Champaran.	14.07

1	2	3	1	2	3
9.	M/s. Cawnpore Sugar Works Ltd., Marhowrah Factory Branch, P.O. Marhowrah, Distt. Saran.	13.76	6.	M/s. Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Gandevi, Via, Billimora, Distt. Bulsar.	16.67
10.	M/s. Gobind Sugar Mills Ltd., Lessee of Shree Hanuman Sugar and Industries Ltd., P.O. Motihari, Distt. Champaran.	14.99	7.	M/s. Shree Madhi Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., P.O. Madhi, Distt. Surat.	17.28
11.	M/s. Guraru Chini Mills, P.O. Guraru Mills, District Gaya.	13.00	8.	M/s. Shree Mahuva Pradesh Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Zervavra, Tal. Mahuva, District Surat.	16.52
12.	M/s. Harinagar Sugar Mills Ltd., P.O. Harinagar, Distt. Champaran.	16.36	9.	M/s. Shree Maroli Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Kalyan Nagar, P.O. Maroli, District Valsad.	16.36
13.	M/s. Motilal Padampat Udyog Ltd., P.O. Majhaulia, Distt. Champaran.	14.99	10.	M/s. Shree Sayan Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd. P.O. Sayan, Tal. Olpad, Distt. Surat.	16.06
14.	M/s. Motipur Sugar Factory Pvt. Ltd., P.O. Motipur, Distt. Muzaffarpur.	13.15	11.	M/s. Shri Sardar Vallabhbhai Patel Khand Udyog Coop. Society Ltd, Jamnavad Road, P.O. Dhoraji, District Rajkot.	13.61
15.	M/s. Mohini Sugar Mills Ltd., P.O. Warisaliganj, Distt. Nawadah.	13.00	12.	M/s. Shree Talala Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Talala (Gir), Distt. Junagadh.	14.53
16.	M/s. North Bihar Sugar Mills Ltd., P.O. Narai- pur, Distt. Champaran.	13.92	13.	M/s. Shree Una Taluka Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Una, Distt. Junagadh.	14.68
17.	M/s. New Swadeshi Sugar Mills Ltd., P.O. Narkatiaganj, Distt. Champaran.	15.29	14.	M/s. Shri Valsad Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Parnera Pardi, Distt. Valsad.	15.45
18.	M/s. New India Sugar Mills Ltd., P.O. Hassan- pur Sugar Mills Distt. Samastipur.	14.99	<b>HARYANA</b>		
19.	M/s. New Savan Sugar Mills, P.O. Siwan, Distt. Siwan.	13.00	1.	The Haryana Cooperative Sugar Mills Ltd., Rohtak.	14.68
20.	M/s. Shree Krishna Gyanoday Sugar Ltd P.O. Lauriya, Distt. Champaran.	13.92	2.	The Karnal Cooperative Sugar Mill Ltd., Karnal.	13.46
21.	M/s. Sugauli Sugar Works Pvt. Ltd., P.O. Sugau- li, Distt. Champaran.	13.46	3.	The Pampat Cooperative Sugar Mills Ltd., Pani- pat, Distt. Karnal.	13.15
22.	M/s. Sitalpore Sugar Works Ltd., P.O. Garaul, Distt. Vaishali.	13.00	4.	The Sonapat Cooperative Sugar Mills Ltd., Sonapat.	13.76
23.	M/s. Sasa Musa Sugar Works Pvt. Ltd., P.O. Sasa Musa, Distt. Gopalganj.	13.61	5.	The Saraswati Sugar Mills, Yamunanagar, District Ambala.	13.31
24.	M/s. Shree Krishna Gyanoday Sugar Ltd., P.O. Mirganj, Distt. Gopalganj.	13.92	<b>KARNATAKA</b>		
25.	M/s. Shree Krishna Gyanoday Sugar Ltd., P.O. Siwan, Distt. Siwan.	13.00	1.	M/s. Bidar Sahakara Sakkare Karkhane Ltd., Hallikhed S.F., District Bidar.	15.60
26.	M/s. South Bihar Sugar Mills Ltd., P.O. Bihta, Distt. Patna.	13.00	2.	M/s. Bhadra Sahakari Sakkare Karkhana Niyamit, Boodabathi, Davanagere Tq., Distt. Chitradurga.	16.06
27.	M/s. Tirhut Coop. Sugar Factory Ltd., P.O. Ryam Factory, Distt. Darbhanga.	13.00	3.	M/s. Davangere Sugar Co. Ltd., Kukkavada, Tal. Drvangere, Distt., Chitradurga.	15.45
28.	M/s. Vishnu Sugar Mills Ltd., P.O. Vishnu Sugar Mills, Gopalganj, Distt. Gopalganj.	13.76	4.	M/s. Gauribidanpur Sahkara Sakkare Kark- hana Ltd., P.O. Gauribidanur, Distt. Kolar.	15.14
<b>GOA</b>			5.	M/s. Godavari Sugar Mills Ltd., Sameerwadi, Via, Mahalingpur, Tal. Mudhel, Distt. Bijapur.	16.52
1.	M/s. Sanjivani Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Dayanandnagar, Usgaon, Post Tiska (Goa).	14.84	6.	M/s. Ghataprabha Sahakari Sakkare Karkhane Niyamit, P.O. Gokak, District Belgaum.	16.82
<b>GUJARAT</b>			7.	M/s. Gangavati Sugar Ltd., Post Pragatinagar, Tal. Gangavati, Distt. Raichur.	13.00
1.	M/s. Amreli Sahakari Krishi Khand Udyog Ltd., Gavadka, Distt. Amreli.	13.46	8.	M/s. Hiranyakeshi Sahakari Sakkare Karkhana Niyamit, F.O. Sankeshwar, District Belgaum.	17.74
2.	M/s. Charotar Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Palaj, Tq. Petlad, Distt. Kaira.	13.31	9.	M/s. India Sugar & Refineries Ltd., P.O. Chit- wadgi, Hospet, Distt. Bellary.	16.21
3.	M/s. Shree Bileshwar Khand Udyog Khedut Sahakari Mandli Ltd., P.O. Kodinar, District Amreli.	14.53	10.	M/s. Kampli Cooperative Sugar Factory Ltd., P.O. Kampli Sugar Factory, Distt. Bellary.	14.38
4.	M/s. Shree Chalthan Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd. P.O. Chalthan, Distt. Surat.	16.98	11.	M/s. Kothari Sugar and Chemicals Ltd., P.O. Desanun, District Bellary.	14.99
5.	M/s. Shree Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Sardar Baug, Baban-Bardoli, District Surat.	16.67			

1	2	3	1	2	3
12	M/s Mysore Sugar Co Ltd, P O Mandya, District Mandya	15 91	3	M/s Balasaheb Desai Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Daulatnagar (Marali), Tal Patan, District Satara	18 05
13	M/s Pandavapura Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, P O Pandavapura, Distt Mandya	16 36	4	M/s Belapur Sugar & Allied Industries Ltd, P O Hinggaon, District Ahmednagar	16 52
14	M/s Raibag Sahakari Sakhar Karkhana Niyamit, P O Raibag Distt Belgaum	16 82	5	M/s Belganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, (Bhoras), P O Chalisgaon Distt Jalgaon	15 45
15	M/s Salai Jung Sugar Mills Ltd, P O Munjaabad, Distt Raichur	15 45	6	M/s Bhima Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, P O Patas, Tehsil Daund, District Pune	16 67
16	M/s Vanivilasa Cooperative Sugar Factory Ltd, P O Haliyur, District Chitradurga	15 45	7	M/s Bhima Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Talhi Shikandar, Tal Mahel, District Sholapur	14 99
17	M/s Shri Malaprabha Coop Sugar Factory Ltd M K Hubli, Distt Belgaum	17 28	8	M/s Bhogawati Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Tile Vanag, Tal Barsi, Distt Sholapur	14 99
18	M/s Shree Doodhangega Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Niyamit, P O Chikodi, District Belgaum	17 48	9	M/s Bima Sugar Ltd, P O Shicepur, Tal Malshiras, Distt Sholapur	16 36
19	M/s Sri Chamundeswari Sugars Ltd, Kalamundana Doodi, Tal Maddur, District Mandya	15 91	10	M/s Chhatrapati Sahakari Sakhar Karkhana Ltd Bhavaninagar Tal Indapur, District Pune	16 198
20	M/s Sri Mahadeswara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, P O Kunthun Kollegal District Mysore	14 22	11	M/s Daulat Snetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, P O Halkarni Tal Chandgad, Distt Kolhapur	18 81
21	M/s Sri Sreenama Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Krishnarajanagar, Mysore Road, District Mysore	14 68	12	Shri Dayaneshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Bhende BK Tal Nawasa, District Ahmednagar	16 98
22	M/s Thungabhadra Sugar Works (P) Ltd Shimoga, District Shimoga	16 82	13	M/s Gadhingalaj Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, P O Gadhingalaj, District Kolhapur	18 05
23	M/s Ugar Sugar Works Ltd, P O Ugarkhurd, District Belgaum	17 28	14	M/s Gangapur Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Raghunathnagar, District Aurangabad	15 14
KERALA			15	M/s Guna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Dabhadri, Tal Malegaon, District Nasik	16 52
1	M/s The Cooperative Sugars Ltd, Chittur, P O Mononpara, District Palghat	13 46	16	M/s Godavari Dudhana Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Deonandra Post & Taluka Pathuri, Distt Paithan	14 99
2	M/s Mannam Sugar Mills Coop Ltd, P O Pandalam, District Alleppy	13 00	17	M/s Godavari Manar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Shankarnagar, Post—Ramirth, Tal Biloli, District Nanded	14 68
3	M/s Travancore Sugar & Chemicals Ltd Valanjavattom, P O Thuvalla, District Alleprey	13 00	18	M/s Godavari Sugar Mills Ltd PO Lakshmiwadi, Via Kopergaon, District Ahmednagar	16 06
MADHYA PRADESH			19	M/s Godavari Sugar Mills Ltd, PO Sakarwadi, Via Kanhegaon, District Ahmednagar	16 06
1	M/s Bhopal Sugar Industries Ltd, P O Sehore, District Sehore	14 22	20	M/s Jai Bhavani Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, P O Georai, Distt Beed	14 99
2	M/s Gwalior Sugar Co Ltd P O Dabra, District Gwalior	14 68	21	M/s Jyamata Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Dusarbid, Tq Mehkar, District Buldhana	14 53
3	Jiwaji Rao Sugar Co Ltd, P O Dalauda, District Mandla	13 00	22	M/s Kada Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, P O Kada, Tal Ashti, District Beed	14 99
4	M/s Jeora Sugar Mills Pvt Ltd, P O Jaora, District Ratlam	13 46	23	M/s Kudwa Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Materewadi, Tal Dindori, District Nasik	14 99
5	M/s Morena Mandal Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, P O Kailas, District Morena	13 00	24	M/s Kalambar Vibhai Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Kalambar At Post Gandhinagar, Tq Kandher, Distt Nanded	14 84
6	M/s Malwa Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Barlai (Kashipura), District Indore	14 07	25	M/s Kannad Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, PO Kannad, District Aurangabad	14 84
7	M/s Seth Govindram Sugar Mills, P O Mehidpur Road, District Ujjain	13 31	26	M/s Karmveer Kakasaheb Wagh Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Post Ranwad, Tal Niphad, District Nasik	16 52
MAHARASHTRA			27	M/s Kolhapur Cane Sugar Works Ltd, Kasaba Bavada, District Kolhapur	17 59
1	M/s Ambajogai Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Post Ambasakhar, Tal Ambajogai, District Beed	15 60			
2	M/s Ashoka Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Ashoknagar, Post Karegaon Factory, Tal Shrinampur District Ahmednagar	15 91			

1	2	3	1	2	3
28.	M/s. Kopergaon Sahakari Sakhar Kar khana Ltd., Gautamnagar Post Kolpewadi, District Ahmednagar.	17.28	52.	M/s. Shree Chhatrapati Shahu Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Kagal, District Kolhapur.	18.35
29.	M/s. Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Rethare Budruk, P.O. Shiy Nagar, Distt. Satara.	18.51	53.	M/s. Shree Panchganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ganganagar-Ichalkaranji, District Kolhapur.	18.20
30.	M/s. Kumbhi Kesar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kuditre, Tal. Karvir, District Kolhapur.	18.51	54.	M/s. Shree Sant Eknath Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Paithan, District Aurangabad.	15.14
31.	M/s. Madhukar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Faizpur, Distt. Jalgaon.	14.99	55.	M/s. Shree Siddheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kumathe, Post Tikekarwadi, District Sholapur.	16.82
32.	M/s. Maharashtra Sugar Mills Ltd., P.O. Tilaknagar, District Ahmednagar.	16.82	56.	M/s. Shree Satpuda Tapi Parisar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Purshottamnagar, Tal. Shahada, District Dhulia.	15.29
33.	M/s. Malegaon Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Malegaon BK, (Shivnagar), Tal. Baramati, District Pune.	17.28	57.	M/s. Shree Someshwar Sahakari Sakhar Kar khana Ltd., PO Nira, District Pune.	17.74
34.	M/s. Marathwada Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Post Dongarkada, Tq. Kalamnuri, Distt. Parbhani.	15.29	58.	M/s. Shree Datta Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Tal. Shirol, District Kolhapur.	18.81
35.	M/s. Mula Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., PO Sonai, Tal. Newasa, District Ahmednagar.	16.06	59.	M/s. Shree Warana Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., PO Warananagar Tal. Panhala District Kolhapur.	18.81
36.	M/s. Nasik Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Palse, District Nasik.	16.36	60.	M/s. Shri Dudhganga Vedganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bldri (Mauninagar), Tal. Kagal, District Kolhapur.	17.28
37.	M/s. Niphad Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Post Bhausheb Nagar, Tal. Niphad, District Nasik.	17.59	61.	M/s. Shrinesh Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ganesnagar, PO Ranjangaon Khurd, Tal. Kopergaon, District Ahmednagar.	15.36
38.	M/s. Phaltan Sugar Works Ltd., PO Sakharwadi District Satara.	17.28	62.	M/s. Shrigonda Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shrigonda Factory, District Ahmednagar.	16.21
39.	M/s. Pravara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pravaranagar, District Ahmednagar.	16.36	63.	M/s. Shri Jagdamba Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Rashin, Tal. Karjat, District Ahmednagar.	15.91
40.	M/s. Purna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Basumathnagar, Distt. Parbhani.	15.45	64.	M/s. Shri Panzarakhan Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhadne, Tal. Sakri, District Dhulia.	15.29
41.	M/s. Rahuri Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shri Shivajinagar, Post Rahuri Factory, District Ahmednagar.	16.52	65.	M/s. Shriram Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Phaltan, District Satara.	16.67
42.	M/s. Ravalgaon Sugar Farm Ltd., P.O. Ravalgaon, District Nasik.	15.45	66.	M/s. Shri Shankar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Post Sadashivnagar Tal. Malshiras, District Sholapur.	16.82
43.	M/s. Sahyadri Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Yeshwantnagar, Tal. Karad, District Satara.	18.20	67.	M/s. Shri Vithal Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Gurusale, Tal. Pandharpur, District Sholapur.	15.60
44.	M/s. Sangamner Bhag Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Amrutnagar, Tal. Sangamner, District Ahmednagar.	17.28	68.	M/s. Siddheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Maniknagar, Tq. Sillod, District Aurangabad.	15.29
45.	M/s. Sanjivani (Takli) Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Post Shinganapur, Tal. Kopergaon, District Ahmednagar.	16.67	69.	M/s. Shri Vriddheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Vriddheshwar Sakhar Karkhana, Tal. Pathardi, Distt. Ahmednagar.	14.84
46.	M/s. Satara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhuinj, PO Kisanveer Nagar, Tal. Wai, District Satara.	17.28	70.	M/s. Terna Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Dhoki, Post Ternanagar, District Osmanabad.	15.60
47.	M/s. Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., PO Sangli, District Sangli.	17.74	71.	M/s. Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Kasoda, Tal. Brandol, Distt. Jalgaon.	14.68
48.	M/s. Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., PO Killari, District Osmanabad.	14.84	72.	M/s. Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., PO Pusad, District Yeotmal.	15.91
49.	M/s. Saswad Mali Sugar Factory Ltd., PO Malinagar, District Sholapur.	15.75	73.	M/s. Vinayak Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Parsoda, PO Deondongari, Tal. Vaijapur, District Aurangabad.	16.82
50.	M/s. Shree Bhogawati Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shahunagar, Tal. Karvir, District Kolhapur.	19.12			
51.	M/s. Shree Changdeo Sugar Mills Ltd., PO Changdeo Nagar, District Ahmednagar.	15.60			

1	2	3	1	2	3
74. M/s. Vishwas Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Yeshwantnagar, Tal. Shirala, District Sangli.	17.74		4. M/s. Aruna Sugars Ltd., P.O. Pennadam, District South Arcot.	15.14	
75. M/s. Walwa Taluka Sahakari Sahakar Karkhana Ltd., PO Islampur, Tal. Walwa, District Sangli.	18.35		5. M/s. Chuvary Sugars & Chemicals Ltd., P.O. Pettaivaytalai Distt. Trichy.	16.21	
76. M/s. Walchandnagar Industries Ltd., PO Walchandnagar, District Pune.	16.21		6. M/s. Chengulvayam Cooperative Sugars Ltd., P.O. Periyasavalai, Ulundurpet, Taluk, District South Arcot.	14.53	
77. M/s. Yeshwant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Akluj, Post Yeshwantnagar, Tal. Malshiras, District Sholapur.	16.36		7. M/s. Deccan Sugar & Abkhari Co. Ltd., Pugalur Sugar Factory, District Trichy.	14.07	
78. M/s. Yeshwant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Chitambarhanga, P.O. Theur, Distt. Pune.	16.21		8. M/s. Dharampuri District Coop. Sugar Mills Ltd., P.O. Palacode, District Charampuri.	15.91	
<b>NAGALAND</b>			9. M/s. E.I.D. Perry Ltd., P.O. Nellikuppam, Distt. South Arcot.	13.00	
1. M/s. Nagaland Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Dimapur (Nagaland).	14.38		10. M/s. Jawaharlal Nehru Sugar Mills Ltd., P.O. Erayur, Parambalur Taluk, District Trichy.	15.75	
<b>ORISSA</b>			11. M/s. Kallakurichi Coop. Sugar Mills Ltd., P.O. Moongilthuraipattu, District South Arcot.	14.84	
1. M/s. Aska Cooperative Sugar Industries Ltd. P.O. Aska, District Ganjam.	13.46		12. M/s. Kothari Sugars & Chemicals Ltd., Kattur, Tal. Lalgudi, Distt. Trichy.	14.63	
2. M/s. Bargah Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Tera (Bargarh) District Sambalpur.	13.00		13. M/s. Madura Sugars Ltd., Pandiarajapuram, (Via) Kodaikanal Road R.S. District Madurai.	13.15	
3. M/s. Jaspore Sugar Co. Ltd., P.O. Rayagada, District Koraput.	14.38		14. M/s. Madurantakam Coop. Sugar Mills Ltd., Padalam, Distt. Chingleput.	14.38	
<b>PONDICHERY</b>			15. M/s. National Coop. Sugar Mills Ltd., P.O. Meppupatti, Via Alanganallur, District Madurai.	15.45	
1. M/s. New Horizon Sugar Mills Pvt. Ltd., Sacur (Ariyur), P.O. Kandamangalam, Pondicherry.	14.38		16. M/s. Sakthi Sugars Ltd., Sakthinagar PO, Erode RMS, District Periyar.	15.45	
<b>PUNJAB</b>			17. M/s. Salem Cooperative Sugar Mills Ltd., Mohanur, District Salem.	14.38	
1. The Batala Cooperative Sugar Mills Ltd., Batala, District Gurdaspur.	17.28		18. M/s. South India Sugars Ltd., P.O. Mundiampakkam, Tal. Villupuram, Distt. South Arcot.	13.31	
2. The Doaba Cooperative Sugar Mills Ltd., Nawanshahr, District Jullundur.	15.75		19. M/s. Thiru Arooran Sugars Ltd., P.O. Vadapaithimnaglam, Distt. Thanjavur.	14.84	
3. The Jagatjit Sugar Mills Co. Ltd., Phagwara, District Kapurthala.	14.68		20. M/s. Tirupattur Cooperative Sugar Mills Ltd., Kethandapatti, Vaniyambadi Taluk, District North Arcot.	15.75	
4. The Janta Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhogpur, District Jullundur.	15.60		21. M/s. Vellore Coop. Sugar Mills Ltd., P.O. Vellore Sugar Mills, Village Ammundi, Distt. North Arcot.	14.38	
5. The Morinda Cooperative Sugar Mills Ltd., Morinda, District Roop Nagar.	15.91		<b>UTTAR PRADESH</b>		
6. The Malwa Sugar Mills Co. Ltd., Dhuri, District Sangrur.	14.07		1. The Amritsar Sugar Mills Co. Ltd., Rohanakalan, P.O. Rohan Mills, District Muzaffarnagar.	15.14	
7. The Punjab Khand Udyog Ltd., Paniar, District Gurdaspur.	16.82		2. The Ajudhia Sugar Mills, Raja-ka-Sahaspur, District Moreabad.	14.38	
8. The Punjab Khand Udyog Ltd., Zira, District Ferozpur.	15.91		3. The Bagpat Cooperative Sugar Mills Ltd., Bagpat, District Meerut.	15.29	
<b>RAJASTHAN</b>			4. The Bazzpur Cooperative Sugar Factory Ltd., Bazzpur, District Nainital.	15.29	
1. M/s. Ganganagar Sugar Mills Ltd., P.O. Sri Ganganagar, District Sri Ganganagar.	13.00		5. The Bisalpur Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Bisalpur, District Pilibhit.	14.68	
2. M/s. Mewar Sugar Mills Ltd., P.O. Bhupalsagar, District Chitorgarh.	14.68		6. The Basti Sugar Mills Co. Ltd., Walterganj, District Basti.	14.99	
3. M/s. Shri Keshoraipatan Sahkari Sugar Mills Ltd., P.O. Keshoraipatan, Distt. Bundi.	15.29		7. The Basti Sugar Mills Co. Ltd., Basti, Basti District.	16.67	
<b>TAMIL NADU</b>			8. The Burhwal Sugar Co. Ltd., Burhwal, District Barabanki.	13.46	
1. M/s. Amravathi Coop. Sugar Mills Ltd., Krishnapuram, P.O. District Coimbatore.	14.53		9. The Balrampur Chini Mills Ltd., Balrampur, District Gonda.	15.60	
2. M/s. Ambur Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Vadapudupet, District North Arcot.	15.60				
3. M/s. Arignar Anna Sugar Mills Ltd., P.O. Kurungulam, Distt. Thanjavur.	15.14				

1	2	3	1	2	3
10. The Cawnpore Sugar Works Ltd., Gauri Factory Branch, Gauribazar, District Deoria.	13.61		39. The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Rastra, District Ballia.	13.61	
11. The Chhatta Sugar Co. Ltd., Chhatta, District Mathura.	13.92		40. The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Sathiaon, District Azamgarh.	13.92	
12. The Chandpur Sugar, Co. Ltd., Chandpur, District Bijnor.	14.84		41. The Lord Krishna Sugar Mills, District Saharanpur.	13.00	
13. The Cawnpore Sugar Works Ltd., Padrauna Factory Branch, Padrauna, District Deoria.	14.38		42. The L.H. Sugar Factories Ltd., District Pilibhit.	14.68	
14. The Cawnpore Sugar Works Ltd., Kathkuiyan, Factory Branch, Kathkuiyan, District Deoria.	14.22		43. The Lakshmiji Sugar Mills Pvt. Ltd., Maholi, District Sitapur.	15.14	
15. The Daurala Sugar Works, Daurala, District Meerut.	16.21		44. The Lakshmi Sugar & Oil Mills Ltd., Hardoi, District Hardoi.	14.07	
16. The Dhampur Sugar, Mills Ltd., Dhampur, District Bijnor.	13.76		45. The L.H. Sugar Factories Ltd., Kashipur, District Nainital.	14.22	
17. The Deoria Sugar Mills Ltd., Deoria.	14.22		46. The Lakshmi Devi Sugar Mills Pvt., Ltd., Chhitauni, District Deoria.	13.31	
18. The Experimental Sugar Factory, (National Sugar Institute), Kalyanpur, District Kanpur.	13.00		47. The Modi Industries Ltd., Modinagar, District Ghaziabad.	15.75	
19. The Gangeshwar Ltd., Deoband, District Saharanpur.	14.68		48. The Mawana Sugar Works, Mawana, District Meerut.	15.75	
20. The Gobind Sugar Mills Ltd., Aira Estate, District Kheri.	14.99		49. The Mahalakshmi Sugar Mills Co. Ltd., Iqbalpur, District Saharanpur.	14.22	
21. The Gangeshwar Ltd., Ramkola, District Deoria.	14.84		50. The Madho Mahesh Sugar Mills, Pvt. Ltd., Munderwa, District Basti.	13.61	
22. The Hindustan Sugar Mills Ltd., Golagokarnath, District Kheri.	15.45		51. The Mahabir Sugar Mills Pvt. Ltd., Siswabazar, District Gorakhpur.	13.76	
23. The H. R. Sugar Factory Pvt. Ltd., Bareilly, District Bareilly.	13.15		52. The Neoli Sugar Factory, Manpurnagar, Neoli, District Etah.	14.99	
24. The Jaswant Sugar Mills Ltd., Meerut City, District Meerut.	14.22		53. The Nawabganj Sugar Mills Co. Ltd., Sugar Factory, Nawabganj, District Gonda.	14.68	
25. Shri Janki Sugar Mills & Co. Doiwala, District Dehradun.	13.92		54. The Nandgunj Sihori Sugar Co. Ltd., Nandgunj, Tah, Saidpur, District Ghazipur.	13.00	
26. The Kisan Cooperative Sugar Factory Ltd., Sarsawa, District Saharanpur.	13.92		55. The Nandganj Sihori Sugar Co. Ltd., Daryapur Unit, Daryapur, District Rai Bareilly.	14.68	
27. The Kesar Sugar Works Ltd., Beheri, District Bareilly.	14.84		56. The Oudh Sugar Mills Ltd., Hargoon, District Sitapur.	14.99	
28. The Kisan Cooperative Sugar Factory Ltd., Majhola, District Pilibhit.	14.53		57. The Pannije Sugar & General Mills Co., Panninagar, Bulandshahr District.	13.31	
29. The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Annupshahr, Jahangirabad, District Bulandshahr.	15.75		58. The Punjab Sugar Mills Co. Ltd., Ghugli, District Gorakhpur.	13.61	
30. The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Satha, District Aligarh.	14.07		59. The Pratappur Sugar & Industries Ltd., Pratapur, District Deoria.	14.68	
31. The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Nanauta, District Saharanpur.	14.68		60. The Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills (Pvt.) Ltd., Laksar, District Saharanpur.	14.22	
32. The Kichha Sugar Co. Ltd., Kichha, District Nainital.	15.45		61. The Rosa Sugar Works of Carew & Co. Ltd., Rosa, District Shahjahanpur.	14.84	
33. The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Kaimganj, District Farrukhabad.	15.14		62. The Ramala Sahkari Chini Mills Ltd., Ramala, District Meerut.	14.22	
34. The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., District Badaun.	14.84		63. The Ratna Sugar Mills Co. Ltd., Shahganj, District Jaunpur.	13.00	
35. The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Rajpur-Pooranpur-Nadehi, Jaspur, District Nainital.	14.07		64. The Raza Bulund Sugar Co. Ltd., District Rampur.	14.53	
36. The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Tulhar, District Shahjahanpur.	13.61		65. The Rudra Bilas Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Bilaspur, District Rampur.	13.46	
37. The K.M. Sugar Mills, Ltd. Motinagar, District Faizabad.	14.68		66. The Simbhaoli Sugar Mills Ltd., Simbhaoli, District Ghaziabad.	16.21	
38. The Kashi Sahkari Chini Mills, Ltd. Autai, District Varanasi.	14.68		67. The Swarn Vegetable Products Industries Ltd., Mansurpur, District Muzaffarnagar.	14.53	

1	2	3	1	2	3
68. The Shriv Prasad Banarsidas Sugar Mills, Bijnor, District Bijnor.	14.07		82. The United Provinces Sugar Co. Ltd., Seorahi, District Deoria.	14.22	
69. The Seksaria Biswan Sugar Factory Ltd., Biswan, District Sitapur.	15.45		83. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Barabanki, Barabanki District.	13.46	
70. Shree Sitaram Sugar Co. Ltd., Baitalpur, District Deoria.	14.22		84. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Jarwal Road, Jarwal Road, District Bahraich.	13.00	
71. The Shankar Agro Industries Ltd., Captainganj, District Deoria.	14.84		85. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Lakshmiganj, Lakshmiganj, District Deoria.	14.07	
72. The Sharda Sugar & Industries Ltd., Paliakalan, District Kheri.	14.68		86. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Ramkola, Ramkola District Deoria.	14.07	
73. The Sarju Sahkari Chini Mills Ltd., Belhayan, District Lakhimpur-Kheri.	13.76		87. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Bhatni, Bhatni, District Deoria	13.92	
74. The Seksaria Sugar Mills Ltd., Babhanan, District Gonda	15.29		88. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Rejabazar, Khadda, District Deoria.	14.22	
75. The Swadeshi Mining & Manufacturing Co. Ltd., (Anand Sugar Mills), Khalilabad, District Basti.	14.99		89. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Pipraich, Pipriach, District Gorakhpur.	14.22	
76. The Swadeshi Mining & Manufacturing Co. Ltd., (Ganesh Sugar Mills), Anandnagar, District Gorakhpur.	15.14		90. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Mohiuddinpur, District Meerut.	14.53	
77. The Saraya Sugar Mills, Pvt. Ltd., Sardarnagar, District Gorakhpur.	14.84		91. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Sakhotitanda, District Meerut.	14.07	
78. The Triveni Engineering Works Ltd. (Sugar Unit : Upper India Sugar Mills), Khatauli, District Muzaffarnagar.	14.99		92. The Upper Deab Sugar Mills Ltd., Shamli, District Muzaffarnagar.	14.53	
79. The Tulsipur Sugar Co. Ltd., Tulsipur, District Gonda.	14.84		<b>WEST BENGAL</b>		
80. The Upper Ganges Sugar Mills Ltd., Seohara, District Bijnor.	14.68		1. M/s. Ahmedpur Sugar Mills, P.O. Ahmedpur, District Birbhum.	14.38	
81. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Amroha, District Moradabad.	14.22		2. M/s. Ramnugger Cane & Sugar Co. Ltd., P.O. Plassey, District Nadia.	14.07	

[No.3-3/82-SPY (D II)]

B. C. GANGOPADHAYAY, Secy.

